

नवंबर 22, 2021

सैकेंडरी के छात्रों (ग्रेड 9-12) के लिए पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन के लिए फार्म

HDSB के सैकेंडरी के छात्रों (ग्रेड 9-12) के प्रिय परिवार,,

सैकेंडरी के छात्रों के वे परिवार जो 7 फरवरी 2022 से पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन (अर्थात **निजी उपस्थिति** के स्थान पर **दूरी से/पूरी तरह ऑनलाइन** पढ़ाई या **दूरी से/पूरी तरह ऑनलाइन** पढ़ाई के स्थान पर **निजी उपस्थिति**) चाहते हैं उनके लिए **पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन के लिए फार्म** भरना जरूरी है। **इस समय यह फार्म खुला है और बुद्धवार 1 दिसंबर 2021 तक भरा जा सकता है।** यह फार्म **केवल** उन परिवारों के लिए हैं जो पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन चाहते हैं। **यदि आप पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन नहीं चाहते तो कृपया इस फार्म को न भरें; आपका बच्चा पढ़ाई के वर्तमान मॉडल में ही रहेगा।**

फार्म भरने से पहले सैकेंडरी के छात्रों के परिवारों को निम्न जानकारी देख लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। **कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जमा कराया गया फैसला आपका अंतिम फैसला हो। यदि आप बुद्धवार 1 दिसंबर 2021 को रात 11:59 तक पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन के लिए फार्म नहीं भरेंगे तो आप पढ़ाई के मॉडल को बदल नहीं सकेंगे।**

यदि आप **निजी उपस्थिति** के स्थान पर **दूरी से/पूरी तरह ऑनलाइन** चाहते हैं तो आपको अपने आवेदन में निम्न कथनों को स्वीकार करना होगा:

- छात्र पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करेगा।
- स्कूल के आरंभ होने और बंद होने के समय HDSB वर्चुअल सैकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम के अनुसार होंगे।
- हो सकता है कि छात्र के इलैक्टिव कोर्स वर्तमान टाइम टेबल में उपलब्ध न हों। वर्चुअल सैकेंडरी स्कूल छात्र के साथ मिलकर उनके स्थान पर अन्य इलैक्टिव कोर्स ढूँढेंगे जिसके परिणामस्वरूप टाइम टेबल में सभी कोर्सों की प्लेसमेंट बदल सकती है।
- निम्न विशेष वैकल्पिक प्रोग्राम वर्चुअल मॉडल में उपलब्ध नहीं होंगे: Accelerated Learning Program, International Baccalaureate, Advanced Placement, SHSM, LEAP तथा I-STEM.
- मॉडल बदलने की स्थिति में हो सकता है कि फ्रेंच इमर्शन तथा गिफ्टेड क्लस्टर कोर्स के संपूर्ण पूरक उपलब्ध न हों।
- दूरी से पढ़ाने वाला स्टाफ, हो सकता है, होम सैकेंडरी स्कूल से न हो।
- दूरी से पढ़ने वाले छात्रों को अपने होम स्कूल में निजी उपस्थिति वाले स्कूल क्लबों या टीमों में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। यह छात्र वर्चुअल स्कूल क्लबों या टीमों में भाग ले सकेंगे।
- ग्रेजुएट करने वाले वर्ष के छात्र अपने मनोनीत होम स्कूल से ग्रेजुएट करेंगे (जो लागू होता है)।
- वर्चुअल सैकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरूरी है कि वे हॉल्टन के निवासी हों तथा यहीं रहते हों।
- छात्रों को उनके वर्तमान परिवहन मार्ग से हटा दिया जाएगा (यदि लागू होता है)।

यदि आप **दूरी से/पूरी तरह ऑनलाइन** पढ़ाई के स्थान पर **निजी उपस्थिति** चाहते हैं तो आपको अपने आवेदन फार्म में निम्न कथनों को स्वीकार करना होगा:

Street Address: J.W. Singleton Education Centre • 2050 Guelph Line, Burlington, Ontario L7P 5A8

Mailing Address: J.W. Singleton Education Centre • P.O. Box 5005, Stn. LCD 1, Burlington, Ontario L7R 3Z2

Phone: 905-335-3663 | 1-877-618-3456 Fax: 905-335-9802

www.hdsb.ca

- ❑ छात्र अपने होम स्कूल में पूरा दिन, सप्ताह के पांच दिन, नियमित समय पर शुरू तथा समाप्त होने तक निजी तौर पर उपस्थित रह कर पढ़ाई करेंगे।
- ❑ हो सकता है कि छात्र के इलैक्टिव कोर्स वर्तमान टाइम टेबल में उपलब्ध न हों। मनोनीत होम स्कूल छात्र के साथ मिलकर उनके स्थान पर अन्य इलैक्टिव कोर्स ढूँढेंगे जिसके परिणामस्वरूप टाइम टेबल में सभी कोर्सों की प्लेसमेंट बदल सकती है।
- ❑ निजी उपस्थिति वाले छात्र अपने होम स्कूल में स्कूल क्लबों तथा टीमों में भाग ले सकेंगे।
- ❑ प्रतिदिन स्कूल आने से पहले छात्रों के लिए ऑटोरियो सरकार के टूल [COVID-19 School Screening Tool](#) की सहायता से अपनी दैनिक स्क्रीनिंग करना जरूरी है।

सैकेंडरी छात्रों के लिए पढ़ाई के मॉडल में परिवर्तन के लिए फार्म अभी भरें:

<https://bit.ly/LearningModelSEC>

पढ़ाई का मॉडल बदलने वाले छात्र अपने चुने हुए मॉडल में सोमवार, 7 फरवरी 2022 से जाएंगे। उस तिथि तक छात्रों से अपने वर्तमान मॉडल में पढ़ाई जारी रखने की आशा की जाती है।

बच्चे की कस्टडी संबंधी समझौते तथा शिक्षा संबंधी साझे फैसले करने वाले परिवारों के मामले में दोनों पक्ष सहमत होने चाहिए। सुनिश्चित होने के लिए अपने बच्चे के स्कूल के साथ संपर्क करें।

अन्य जानकारी

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने बच्चे के स्कूल के साथ संपर्क करें। पढ़ाई के दो मॉडलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी [September 2021 Plan website](#) पर *अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न* (FAQs) देखें।

HDSB की वेबसाइट, SchoolMessenger ई-मेलों तथा सोशल मीडिया ([Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#)) के जरिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे।

नोट: यह संदेश Gary Allan Learning Centre के छात्रों के लिए नहीं है। इन छात्रों /परिवारों को सूचना सीधी Gary Allan Learning Centres के मुख्य दफ्तर की ओर से मिलेगी।